

Advik Capital Limited

(Formerly known as Advik Industries Limited)

CIN : L65100DL1985PLC022505

Regd. Office: Advik House, Plot No.84, Khasra No. 143/84

Extended Lal Dora 100 Ft. Road, Kanjhawala, New Delhi-110081

E-mail: info@advikgroup.com | Tel: + 91-11-25952595

Fax: +91-11-25952525 | Help Line: +91-9136311500

www.advikgroup.com



October 21, 2022

Listing Compliance Department

BSE Limited

Phirozee Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai - 400 001

(Scrip Code: 539773)

Sub: Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended September 30, 2022.

Dear Sir/Madam,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2021, as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated October 21, 2022 in compliance with the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The above information is also available on the Company's website at www.advikgroup.com

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

for Advik Capital Limited


Rashika Gupta
Company Secretary



GUJARAT GAS LIMITED

Registered Office: Gujarat Gas CNG Station, Sector 5/C, Gandhinagar - 382006, Gujarat. Tel: +91-79-26462980
 Fax: +91-79-26466249, website: www.gujaratgas.com
 E-mail Id: Investors@GUJARATGAS.COM
 CIN: L42020GJ2012SGC069118

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, 10th November, 2022** to consider and approve the unaudited standalone & consolidated financial results for the quarter ended on **30th September, 2022**. The notice of this meeting is also available on the Company's website (www.gujaratgas.com) and also on the Stock Exchanges' web sites of National Stock Exchange of India Limited at (www.nseindia.com) and BSE Limited at (www.bseindia.com).

For, Gujarat Gas Limited
 Sd/-
Sandeep Dave
 Company Secretary

Place: Ahmedabad
 Date: 20th October, 2022

Advik Capital Limited

ADVIK CAPITAL LIMITED
 CIN: L65100DL1985PLC022505
 Registered office: Plot No. 84, Khasra No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi-110081, Ph No: 011-25952595 | Website: www.advikgroup.com | Email: advikcapital@gmail.com, cs@advikgroup.com

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

(Rs. In Lakhs)

S. No.	Particulars	Consolidated					
		Three Months Ended			Half Year Ended		
		30-Sep-22	30-Jun-22	30-Sep-21	30-Sep-22	30-Sep-21	31-Mar-22
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income	22,830.07	10,951.09	133.66	33,781.16	206.17	4,657.72
2	Total Expenses	22,010.35	10,827.26	110.15	32,837.16	182.77	4,594.43
3	Net Profit / (Loss) Before Tax	819.72	123.83	23.51	943.55	23.40	63.29
4	Net Profit / (Loss) After Tax	606.49	92.66	17.63	699.15	17.55	47.38
5	Total comprehensive income for the period	606.49	92.66	17.63	699.15	17.55	47.38
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each)	2,201.93	2,201.93	608.74	608.74	608.74	458.74
7	Earning per Equity Share of Re 1/- each						
	Basic	0.28	0.05	0.03	1.17	0.03	0.10
	Diluted	0.28	0.05	0.03	1.17	0.03	0.10

Notes to Unaudited Consolidated IND AS Financial Results:

- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The Full format of the financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on company's website (www.advikgroup.com).
- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held in October 19, 2022. The Statutory auditors have carried out audit of the results for the quarter and half year ended September 30, 2022.

for Advik Capital Limited
 Virender Kumar Agarwal
 Managing Director
 DIN:00531255

Place: New Delhi
 Date: October 19, 2022

GOLKUNDA DIAMONDS & JEWELLERY LTD

CIN No: L36912MH1990PLC058729
 Regd. Office: G-30, Gems & Jewellery Complex III, Seepz, Andheri (E), Mumbai 400 096.

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTH ENDED 30TH SEPTEMBER 2022

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended
	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022
	Reviewed	Reviewed	Reviewed
Total Income from operations (net)	5,483.84	5,658.95	12,146.31
Net Profit for the period before Tax & Exceptional Item	237.06	167.72	664.62
Net Profit for the period before Tax & after Exceptional Item	237.06	167.72	664.62
Net Profit for the period after Tax & Exceptional Item	170.06	121.72	489.62
Other Comprehensive income for the period	9.09	-0.10	-4.80
Total Comprehensive Income for the period (Comparing Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	179.15	121.62	484.81
Equity Share Capital	696.41	696.41	696.41
Reserves (excluding Revaluation Reserve)			
Earnings Per Share (before/after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)	2.44	1.75	7.03
(a) Basic	2.44	1.75	7.03
(b) Diluted	2.44	1.75	7.03

NOTES:

- The above results have been reviewed by the the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 20th October, 2022.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and the company website (www.golkunda.com).
- The result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under.
- The above financial result have been subjected to "Limited Review" by the statutory Auditor of the Company.
- The Provision for Deferred Tax will be made at the end of the financial year.
- Raw Materials & Finished Goods are valued at lower of cost and net realisable value.
- Figures of previous periods have been regrouped wherever necessary.
- Company operates in single business segment i.e. manufacturing and sale of Gems & Jewellery.
- The above figures are in lacs except EPS.

For Golkunda Diamonds & Jewellery Ltd
 Sd/-
Arvind Kantikumar Dhadha
 (Managing Director)

Place : Mumbai
 Dated : 20th October, 2022

accelya

Accelya Solutions India Limited

Regd. Off. : Accelya Enclave, 685/2B & 2C, 1st Floor, Sharada Arcade, Satara Road, Pune-411037
 Tel: +91 20 66083777 Fax: +91 20 24231639 Email: accelya@accelya.com
 Website: w3.accelya.com CIN: L74140PN1986PLC041033

Notice is hereby given that the Company has received intimation from the following shareholders/investors that share certificate pertaining to the equity shares held by them, as per details given below is stated to have been lost/misplaced/stolen and the holders/investors has applied for issue of duplicate share certificates.

Sl. No.	Folio No.	Name of Shareholder(s)	Share Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Shares
1	KLE015144	GAURI K JINSIWALE KISHORE S JIMSIWALE	45616	10343251	10343300
			23741	9249451	9249550
			23742	9249551	9249600
2	KLE039589	SANJIV S GOKHALE	23740	9249451	9249500
			23741	9249501	9249550
			23742	9249551	9249600
			7657	8445301	8445350
			7658	8445351	8445400
3	KLE000528	JAYA RAJENDRA GODBOLE	7659	8445401	8445450
			7660	8445451	8445500
			7661	8445501	8445550
			7662	8445551	8445600

Public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has/have any claim in respect of the said certificates could lodge such claim with the Company or its Registrar at KFIN Technologies Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 to 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 within 14 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained by the Company. Any person dealing with the above share certificates shall be doing so solely at his /her risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for in any way.

For Accelya Solutions India Limited
 Ninad Umraniakar
 Company Secretary

Place: Pune
 Date : 20.10.2022

MIRAE ASSET Mutual Fund

NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/52/2022

THIS NOTICE CUM ADDENDUM SETS OUT THE CHANGES TO BE MADE IN THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ("SAI") OF MIRAE ASSET MUTUAL FUND ("MAMF").

Appointment of Key Personnel of Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt. Ltd. ("AMC")

Investors are requested to note that **Mr. Ritesh Patel** has been appointed as **Commodity Analyst and Fund Manager with effect from October 20, 2022**.

Accordingly, the details pertaining to Mr. Ritesh Patel, shall be added under the heading 'Information on Key Personnel' under sub section D 'Asset Management Company', under section I 'Information about Sponsor, AMC and Trustee Companies' in the SAI of the Fund:-

Name	Designation / Years of experience	Qualification / Age	Experience & Background (during last 10 years)
Mr. Ritesh Patel	Commodity Analyst and Fund Manager / 10 years	Bachelors in Financial Market, CMT L-2 Candidate / 31 years	Mr. Ritesh Patel has over 10 years of experience in the field of Commodities Market. Prior to this assignment, Mr. Patel has worked with Aditya Birla Money Ltd, IIFL Securities, Ventura Securities and Choice Broking Pvt. Ltd.

This notice cum addendum forms an integral part of SAI of MAMF, as amended from time to time. All the other terms and conditions of SAI will remain unchanged.

For and on behalf of the Board of Directors of
MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD
 (Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Place : Mumbai
 Date : October 20, 2022

Sd/-
AUTHORISED SIGNATORY

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625).
 Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098.
 ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customer@miraeasset.com 🌐 www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED

CIN: U65990DL2021PLC385568
 Regd. Off: 40, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057.
 Corporate Office: Centrum House, C.S.T. Road, Vidyanageri Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098.
 Tel: 91 22 4215 9000 Website: www.theunitybank.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015] (LODR Regulations) (Rs. In Lakhs)

Sr No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2022	Quarter ended 30.09.2021	Year ended 31.03.2022
1.	Total Income from Operations	21,046	0	15,424
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-566	-572	-15,733
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-566	-572	-15,733
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-748	-572	-14,961
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-748	-572	-14,961
6.	Paid up Equity Share Capital	70,490	1	70,490
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year			53,141
8.	Securities Premium Account	40,032	-	40,032
9.	Net worth	1,79,692	-	1,91,387
10.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
11.	Debt Equity Ratio	0.15	-	0.59
12.	Outstanding Debt	27,236	-	1,12,840
13.	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic:	(0.11)	-	(2.12)
	2. Diluted:	(0.11)	-	(2.12)
14.	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15.	Debenture Redemption Reserve	-	-	-

Note:

- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at <https://theunitybank.com>
- For the other items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange, viz. BSE Limited and can be accessed at www.bseindia.com
- The above unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on October 20, 2022. The statutory auditors have carried out the Limited Review of the aforesaid results and have issued an unmodified report.

For and on behalf of the Board of Directors
Unity Small Finance Bank Limited

Sd/-
Inderjit Camotra
 MD & CEO
 DIN : 09602543

Place : Mumbai
 Dated : 20.10.2022

BID / ISSUE PROGRAM

OPENED ON ⁽¹⁾ : MONDAY, OCTOBER 31, 2022

CLOSED ON: THURSDAY, NOVEMBER 03, 2022

(1) Our company in consultation with the BRLM may consider participation by Anchor Investors. Anchor Investor Bidding date shall be one working day prior to the Bid/Issue opening date, in accordance with SEBI ICDR Regulations.

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. For details, see "Issue Procedure" on page 210 of the Red Herring Prospectus.

Bidders / Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active.

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 133 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 279 of the Red Herring Prospectus.

Liability of Members of the Company: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorized share capital of the Company is ₹ 25,00,00,000 divided into 25000000 Equity Shares of ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 17,55,15,000 divided into 17551500 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 60 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Mr. Vipul Bhatt - 5040000 Equity Shares, Mrs. Sangeeta Bhatt - 1680000 Equity Shares, Mr. Jay Bhatt - 120 Equity Shares, M/s. Vipul Jatashankar Bhatt HUF - 120 Equity Shares, Ms. Keyaa Bhatt - 120 Equity Shares, Mr. Hitesh Bhatt - 120 Equity Shares and Mr. Dhaval Pandya - 120 Equity Shares aggregating to 67,20,600 Equity Shares of ₹ 10/- each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 60 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited. Our Company has received an in-principle approval from the National Stock Exchange of India Limited for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated September 22, 2022. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been submitted with the ROC on October 17, 2022 and Prospectus shall be submitted for registration to the ROC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 279 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Red Herring Prospectus/Red Herring Prospectus was filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 135 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by National Stock Exchange of India Limited ("NSE") should not in any way be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 190 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of National Stock Exchange of India Limited.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 26 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <p>BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED SEBI Registration Number: INM000012917 Address: 807, Phoenix, Opp. Girish Cold Drinks, Near Vijay Cross Roads, Navrangpura, Ahmedabad - 380009, Gujarat. Telephone Number: 079 4840 5357 Email Id: mb@beelinemb.com Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com Website: www.beelinemb.com Contact Person: Mr. Nikhil Shah CIN: U67190GJ2020PTC114322</p>	 <p>SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED SEBI Registration Number: INR000003241 Address: D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi - 110020, India. Tel. Number: 011-40450193-197 Fax- 011-26812683 Email Id: compliances@skylinerta.com Investors Grievance Id: grievances@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com Contact Person: Mr. Alok Gautam CIN: U74899DL1995PTC071324</p>	 <p>Vital Chemtech Limited CS Puja Paras Mehta B-406, Mondeal Heights, Opp. Karnavati Club, S. G. Highway, Ahmedabad -380015, Gujarat. Tel No: 079 - 46005840; Email: info@vitalgroup.co.in Website: www.vitalgroup.co.in</p> <p>Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.</p>

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.vitalgroup.co.in, the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of NSE i.e. www.nseindia.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Vital Chemtech Limited, Telephone: 079 - 46005840; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: 079 48405357 and the Syndicate Member: Sunflower Broking Private Limited Telephone: +91 8905344010 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: Axis Bank Limited. UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

Place: Ahmedabad
 Date: October 20, 2022

On behalf of Board of Directors
 For, Vital Chemtech Limited
 Sd/-
Mr. Vipul Jatashankar Bhatt
 Chairman and Managing Director

Disclaimer: Vital Chemtech Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Ahmedabad on October 17, 2022 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.vitalgroup.co.in, the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of NSE i.e. www.nseindia.com, and respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and the details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
...सर्वोत्तम का प्रतिष्ठित (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!
एएसएच-12 जगत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गंगा 1 ग्रेटर नोएडा गंगा-1, ई-मेल: cs8290@pnb.co.in

श्रीके.ओ.एस.एस.आर. विधायक संघों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक के अधिकृत अधिकारी (मुख्य प्रबंधक) होने के नाते, और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.03.2020 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें ऋणी श्रीमती मधु और श्री परमेश्वर को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 10,32,762.49 (दस लाख बत्तीस हजार सात सौ बारास रुपये और उनवास पैसे मात्र) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का पुनर्मुग्तान करने को कहा गया। उधारकर्ता गारंटर द्वारा राशि का मुग्तान करने में विफल रहे हैं,अतः उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि ओ.एस.एस.आर. ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 अक्टूबर 2022 को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता/ गारंटर और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति को साथ किसी भी तरह का लेन-देन रु. 10,32,762.49(दस लाख बत्तीस हजार सात सौ बारास रुपये और उनवास पैसे मात्र) और एनपीए की तारीख से ब्याज पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूति संपत्तियों को मुग्तान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

श्रीमती मधु और श्री परमेश्वर के नाम पर क्षेत्र-31 वर्ग मीटर वाले आवासीय प्लेट नं-सी 248एफ एफ, ओमोकॉन-1ए, ग्रेटर नोएडा का साम्यिक बंधक। चौड़ी - लीज योजना के अनुसार।।

दिनांक: 19.10.2022 स्थान: ग्रेटर नोएडा अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

Advik Capital Limited
एडविक कैपिटल लिमिटेड
CIN: L65100DL1985PLC022505
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 84, खसरा नंबर, 143/84, भुलर, विस्तारित ताल डोरा, कंझावाला, दिल्ली -110081,
फोन नंबर: 011-25952595 | वेबसाइट: www.advikgroup.com | ईमेल: advikcapital@gmail.com, cs@advikgroup.com

30 सितम्बर, 2022 का समाप्त तिमाही तथा छमाही के अंकीकृत समाप्त वित्तीय परिणामों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	समेकित					
		समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष	
		30 सित. 22	30 जून, 22	30 सित. 21	30 सित. 22		31 मार्च 22
		अनंकीकृत	अनंकीकृत	अनंकीकृत	अनंकीकृत	अनंकीकृत	अनंकीकृत
1	कूल आय	22,830.07	10,951.09	133.66	33,781.16	204.17	4,657.72
2	कूल खर्च	22,010.35	10,827.26	110.15	32,837.16	182.77	4,594.43
3	कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)	819.72	123.83	23.51	943.55	23.40	63.29
4	कर से बाद निवल लाभ/(हानि)	606.49	92.66	17.63	699.15	17.55	47.38
5	अवधि के लिये कूल व्यापक आय	606.49	92.66	17.63	699.15	17.55	47.38
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 1/- प्रति)	2,201.93	2,201.93	608.74	608.74	608.74	458.74
7	आय रु. 1 प्रति का प्रति इक्विटी शेयर मूल-तल-	0.28	0.05	0.03	1.17	0.03	0.10
		0.28	0.05	0.03	1.17	0.03	0.10

अनंकीकृत समेकित इंड ए एस वित्तीय परिणामों की टिप्पणी:

1. उपरोक्त तथ्यों (सूचीबद्ध एवं अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल वित्तीय परिणामों के विस्तृत सारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का समग्र सारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.advikgroup.com) पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कम्पिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 19 अक्टूबर, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सार्वजनिक लेखा-परीक्षकों ने 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के परिणामों को सौमिंत समीक्षा की है।

एडविक कैपिटल लिमिटेड के लिये
किरन्दर कुमार अग्रवाल
प्रबंध निदेशक
DIN:00531255

विकास इकोटेक लिमिटेड
CIN - L65999DL1984PLC019465 | पंजीकृत कार्यालय: विकास हाउस, 34/1, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली -110026
30 सितम्बर, 2022 का समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये अनंकीकृत वित्तीय परिणामों का विवरण

विवरण	समाप्त तिमाही					
	समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष	
	30.09.2022	30.04.2022	30.09.2021	30.09.2022		30.09.2021
	अनंकीकृत	अनंकीकृत	अनंकीकृत	अनंकीकृत	अनंकीकृत	अनंकीकृत
1 आय						
क) प्रचालनों से राजस्व	13,433.08	8,869.48	7,397.28	22,302.56	9,204.96	25,042.40
ख) अन्य आय	59.99	44.48	125.65	104.47	161.50	173.31
कूल आय	13,493.07	8,913.96	7,522.93	22,407.03	9,366.46	25,215.71
2 अप्रयोजित मर्दा तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि)	13,125.67	8,754.25	7,436.14	21,879.94	9,473.64	25,006.25
3 अप्रयोजित मर्दे	367.38	159.71	86.79	527.09	(305.18)	209.46
4 कर से पूर्व लाभ/(हानि)	367.38	159.71	86.79	527.09	(305.18)	209.46
5 कर खर्च:						
क) आयकर	0.55	-	(0.43)	0.55	(1.51)	(3.70)
ख) आरक्षित कर	-	-	-	-	-	-
ग) पूर्व वर्ष का आय कर एवं ब्याज	12.66	13.42	22.44	26.08	22.44	62.35
अनवगत प्रचालनों से अग्रवर्ष के लिये लाभ/(हानि)	354.17	146.29	64.78	500.44	(324.11)	139.24
अवधि के लिये लाभ/(हानि)	354.17	146.29	64.78	500.44	(324.11)	139.24
अन्य व्यापक आय						
क) ऐसी मर्दा जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी	(6.16)	3.97	1.71	(2.19)	6.01	14.71
ख) ऐसी मर्दा से सम्बंधित आय कर जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी	1.55	(1.00)	(0.43)	0.55	(1.51)	(3.70)
कूल व्यापक आय (लाभ/हानि) तथा अवधि के लिये अन्य व्यापक आय से शामिल	349.56	149.26	66.06	498.82	(324.11)	150.25
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का सम मूल्य दर्शाता आरेख)	9,468.29	9,468.29	6,437.69	9,468.29	6,437.69	9,393.37
पूर्व लेखा वर्ष के वृद्धि पर के अनुसार, पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर आरक्षित	13,832.14	13,346.66	11,000.37	13,832.14	11,000.37	13,346.66
आय प्रति इक्विटी शेयर रु. 1/- प्रति का इक्विटी शेयर	0.05	0.02	0.01	0.05	(0.05)	0.02
क) मूल (रु. में)	0.05	0.02	0.01	0.05	(0.05)	0.02
ख) तलर (रु. में)	0.05	0.02	0.01	0.05	(0.07)	0.02

टिप्पणियाँ:

1. कम्पनी के वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड ए एस अनुसार तथा सेबी (सूचीबद्ध वित्तीय एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार सारूप किया गया है।

2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कम्पिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 19 अक्टूबर, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये, सार्वजनिक आडिट के 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के परिणामों को सौमिंत समीक्षा की है।

दिनांक: 19.10.2022
स्थान: नई दिल्ली
कृते, विकास इकोटेक लिमिटेड
विकास मां प्रबंध निदेशक
DIN:00255413

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED
CIN-L74899DL2000PLC105817
Regd. & Corporate office: D-174, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020.
Tel-011-47351111, Fax:011-26229671,26235205
Website: www.tigerlogistics.in. Email: cs@tigerlogistics.in

Statement of Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter & Half Year Ended September 30th, 2022.

S. No.	Particulars	(Rs in Lakhs)			
		Quarter ended		Year Ended	
		30.09.2022	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022
1.	Total Income from Operations	18,311.00	29,112.38	17,322.36	61,720.46
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)#	1,019.57	1,631.12	904.43	3,738.18
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	1,019.57	1,631.12	904.43	3,738.18
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	754.88	1,178.12	855.11	3,353.17
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-37.44	-68.49	2.54	-10.17
6.	Equity Share Capital	1057.25	1057.25	1057.25	1057.25
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	7,563.82	-	6,385.70
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	7.14	11.14	8.09	31.72
	2. Diluted:	7.14	11.14	8.09	31.72

1 The above unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30th, 2022 of Tiger Logistics (India) Limited (the "Company") have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on October 19th, 2022, in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditor of the Company has carried out Limited Review of the aforesaid results.

2 These unaudited financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principals laid down in Indian Accounting Standards 34 — Interim Financial Reporting ("Ind AS 34") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principal generally accepted in India and in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended.

3 The figures for the corresponding previous periods have been regrouped/reclassified wherever necessary, to make them comparable.

4 The above unaudited Financial Results of the Company are available on the Company's website www.tigerlogistics.in and also on the website of BSE i.e. www.bseindia.com where the shares of the Company are listed.

For Tiger Logistics (India) Limited
Sd/-
Harpreet Singh Malhotra
Managing Director (DIN: 00147977)

Place: New Delhi
Date: 20.10.2022

दक्षिण रेल्व

ई-निविदा सूचना तिथि 18.10.2022

भारत के राष्ट्रपति की ओर से चरि-मंडल विद्युत अधिनियम (सामान्य सेवाएं), पालाकड मंडल द्वारा नीचे वर्णित कार्यों के लिये अनुभवी ठेकेदारों से भारतीय रेलवे के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
निविदा बंद होने की तिथि एवं समय : 15.11.2022 के 11.00 बजे

क्रम सं.	निविदा सूचना सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.)
1.	जे-ई-15-2022-23- डब्ल्यू	एसआरआर एवं ओटीपी : ओटीपी में एसआरआर, 4 वेज में आईआरएस टाइप सेल्टर 4 वेज का प्रवधान (कुल 8 वेज) - विद्युत व्यवस्था	7,23,545/-
2.	जे-ई-16-2022-23- डब्ल्यू	पीओटी मंडल : पीएनके, वीएपीए एवं वीएएल : पीएनके, 4 वेज, वीएपीए में 4 वेज तथा वीएएल में 2 वेज में आईआरएस टाइप सेल्टर 4 वेज का प्रवधान (कुल 10 वेज) - विद्युत व्यवस्था	16,15,448/-
3.	जे-ई-17-2022-23- डब्ल्यू	पीओटी मंडल में विभिन्न ट्रेलरों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का प्रवधान-विद्युत व्यवस्था	1,36,20,718/-

समूह विवरण एवं निविदा दस्तावेज <http://www.ireps.gov.in> में उपलब्ध होगा। शुद्धि पत्र, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट में अधिसूचित की जाएगी तथा समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी।
चरि, मंडल विद्युत अधिनियम (सामान्य), पालाकड मंडल

Follow us on: twitter.com/GMSRailway

पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
...सर्वोत्तम का प्रतिष्ठित (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!
मण्डल शाखा दिल्ली, भौकाली कक्षा फोर, नई दिल्ली -110086
फोन: 47519273 ई-मेल : cs4168@pnb.co.in

कक्षा सूचना

जबकि ओ.एस.एस.आर. विधायक संघों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पंजाब नैशनल बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार उधारकर्ता/गारंटर/प्रभोदर श्रीमती मुनी देवी अग्रवाल और श्री हरपूर चंद अग्रवाल, 1-11, पूर्वा विहार, प्लॉट नं. 62, सेक्टर-8, रोहिणी दिल्ली-110085 को मांग सूचना दिनांक 01-06-2022 को जारी किया गया था, जिसमें बकाया राशि रु. 19,35,743/- (रु. उन्नीस लाख पचीस हजार सात सौ तैलातीस मात्र) दिनांक 01.06.2022 से बहिष्कृत कर्जदार, आकिरमक खर्च, लागत, प्रभार इत्यादि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर मुग्तान करने को कहा गया था।

कर्जदार(से)/सह-कर्जदार(से)/बंधकर्ता(ओं)/गारंटर(से) उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का मुग्तान करने में असफल हो गये हैं इसलिए एतद्वारा कर्जदार(से)/सह-कर्जदार(से)/बंधकर्ता(ओं)/गारंटर(से) तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ओ.एस.एस.आर. ने सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 19.10.2022 को ले लिया है।

कर्जदार(से)/सह-कर्जदार(से)/बंधकर्ता(ओं)/गारंटर(से) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से घेतावनी दी जाती है कि वे निम्न संपत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब नेशनल बैंक, के प्रभार वास्तु राशि रु. 19,91,084/- (रु. उन्नीस लाख इक्कात्तई हजार पौरसी मात्र) दिनांक 30.09.2022 तक और दिनांक 01.10.2022 से संविदात्मक दर पर बहिष्कृत कर्जदार, पूर्ण वसूली की तिथि तक के अधीन होगा।

कर्जदार(से)/सह-कर्जदार(से)/बंधकर्ता(ओं)/गारंटर(से) का ध्यान एकट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिस्थितियों को मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

साप्तिक बंधक संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण बेसमेंट (बिना छत/टैरस/देरस/कॉरिडोर) के निर्मित फ्री होल्ड संपत्ति नं. 105 का भाग, ब्लॉक-क्यूपी, भूमि क्षेत्रफल 84.00 वर्ग मी. पर निर्मित, पीतमपुरा रिहायशी स्कीम के ले-आउट प्लान के अंतर्गत, दिल्ली में स्थित, यह संपत्ति श्रीमती मुनी देवी अग्रवाल पत्नी श्री हरपूर चंद अग्रवाल के नाम पर है। चौड़ी : पूरव - सार्विस लेन, परिधम नं - 5 मी. चौड़ी रोड, उत्तर में - अन्य की संपत्ति, दक्षिण में - 7 मीटर चौड़ा रोड

दिनांक : 19.10.2022, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

कैलॉम विजन लिमिटेड
CIN: L92111DL1985PLC021095 (कांफॉरिटेड सवस्य: वीएसए)
पंजी. कार्यालय: सी-41, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली -110024
वेबसाइट: www.calcomindia.com | ईमेल: corp.compliance@calcomindia.com | फोन नं. 0120-2569761
30 सितम्बर, 2022 का समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनंकीकृत वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. सार्खों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही					
		30 सित. 22 (अनंकीकृत)	30 जून 22 (अनंकीकृत)	30 सित. 21 (अनंकीकृत)	30 सित. 22 (अनंकीकृत)	30 सित. 21 (अनंकीकृत)	30 मार्च 22 (अनंकीकृत)
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	3901.70	3007.63	2402.29	6909.33	3159.97	10006.43
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, विशेष और/या असाधारण मर्दे)	205.55	106.12	57.23	311.67	-38.27	135.07
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और/या असाधारण मर्दे के बाद)	205.55	106.12	57.23	311.67	-38.27	135.07
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और/या असाधारण मर्दे के बाद)	153.82	79.41	57.23	233.23	-38.27	85.38
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद) अवधि के लिए लाभ/(हानि और (कर के बाद) अन्य व्यापक आय शामिल)	161.57	104.79	74.38	266.36	0.41	174.05
6	इक्विटी शेयर पूंजी	1276.35	1276.35	1061.63	1276.35	1061.63	1267.11
7	रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है।	-	-	-	-	-	1537.77
8	प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक) (जारी और बंद परिचालन के लिए)	1.21*	0.62*	(0.54)*	1.83*	(0.36)*	0.78
9	वैशेषिक:	1.18*	0.81*	(0.52)*	1.78*	(0.35)*	0.66

टिप्पणियाँ:

1 20 अक्टूबर, 2022 को आयोजित कंपनी के उपरोक्त अनंकीकृत वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा सविधि द्वारा की गई है और उसको बाद निदेशक मंडल द्वारा पंचमि संबंधित बैठक में समीक्षा की गई है।

2 उपरोक्त सेबी (सूचीबद्ध वित्तीय एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल वित्तीय परिणामों की ऑडिट कम्पिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 19 अक्टूबर, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये, सार्वजनिक आडिट के 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के परिणामों को सौमिंत समीक्षा की है। वित्तीय परिणामों का समग्र सारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com तथा साथ ही कंपनी की वेबसाइट www.calcomindia.com पर उपलब्ध है।

बैंड के आवेदक से कृते कैलॉम विजन लिमिटेड द्वारा - एच. के. मुक्ति कक्का व प्रबंध निदेशक
दिनांक: 20.10.2022
स्थान: ग्रेटर नोएडा
DIN: 00085715

पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
...सर्वोत्तम का प्रतिष्ठित (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!
मण्डल शाखा दिल्ली, भौकाली कक्षा फोर, नई दिल्ली -110086
फोन: 47519273 ई-मेल : cs4168@pnb.co.in

कक्षा सूचना

जबकि ओ.एस.एस.आर. विधायक संघों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पंजाब नैशनल बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार उधारकर्ता/गारंटर/प्रभोदर श्रीमती मुनी देवी अग्रवाल और श्री हरपूर चंद अग्रवाल, 1-11, पूर्वा विहार, प्लॉट नं. 62, सेक्टर-8, रोहिणी दिल्ली-110085 को मांग सूचना दिनांक 01-06-2022 को जारी किया गया था, जिसमें बकाया राशि रु. 19,35,743/- (रु. उन्नीस लाख पचीस हजार सात सौ तैलातीस मात्र) दिनांक 01.06.2022 से बहिष्कृत कर्जदार, आकिरमक खर्च, लागत, प्रभार इत्यादि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर मुग्तान करने को कहा गया था।

कर्जदार(से)/सह-कर्जदार(से)/बंधकर्ता(ओं)/गारंटर(से) उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का मुग्तान करने में असफल हो गये हैं इसलिए एतद्वारा कर्जदार(से)/सह-कर्जदार(से)/बंधकर्ता(ओं)/गारंटर(से) तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ओ.एस.एस.आर. ने सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 19.10.2022 को ले लिया है।

कर्जदार(से)/सह-कर्जदार(से)/बंधकर्ता(ओं)/गारंटर(से) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से घेतावनी दी जाती है कि वे निम्न संपत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब नेशनल बैंक, के प्रभार वास्तु राशि रु. 19,91,084/- (रु. उन्नीस लाख इक्कात्तई हजार पौरसी मात्र) दिनांक 30.09.2022 तक और दिनांक 01.10.2022 से संविदात्मक दर पर बहिष्कृत कर्जदार, पूर्ण वसूली की तिथि तक के अधीन होगा।

कर्जदार(से)/सह-कर्जदार(से)/बंधकर्ता(ओं)/गारंटर(से) का ध्यान एकट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिस्थितियों को मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

साप्तिक बंधक संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण बेसमेंट (बिना छत/टैरस/देरस/कॉरिडोर) के निर्मित फ्री होल्ड संपत्ति नं. 105 का भाग, ब्लॉक-क्यूपी, भूमि क्षेत्रफल 84.00 वर्ग मी. पर निर्मित, पीतमपुरा रिहायशी स्कीम के ले-आउट प्लान के अंतर्गत, दिल्ली में स्थित, यह संपत्ति श्रीमती मुनी देवी अग्रवाल पत्नी श्री हरपूर चंद अग्रवाल के नाम पर है। चौड़ी : पूरव - सार्विस लेन,